

## प्रेस नोट दिनांक-08-07-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). वरि0उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा हमराही आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 78/21 धारा 376/504 भादवि के वांछित अभियुक्त छंगू उर्फ मंगल पुत्र जगपाल उर्फ चुनवाद निवासी ग्राम पटियाजपती थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0श्री अनिल कुमार थाना मऊ तथा हमराही मुख्य आरक्षी अनिल कुमार मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 118/21 धारा 354/452 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त आशीष पाल पुत्र श्यामलाल पाल निवासी बम्बुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### (2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2041 चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 07/07/2020 को समय 15:30 बजे इवेंट संख्या 9770 द्वारा घटनास्थल बगलई पुल थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर कमलेश ( मोबाइल नंबर 8081246726 ) जी ने बताया कि कार का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है दो लोग घायल है एक महिला की हालत गंभीर है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि टाटा इंडिका CG-04 HC7439 का मोटरसाइकिल UP-96 S9896 से एक्सीडेंट हो गया है। जिससे मोटरसाइकिल सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गये है। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से CHC अस्पताल भांगा में भर्ती कराया गया। घायलों के घरवालों भी मौके पर आ गये है।

#### पीआरवी स्टाफ

कमांडर - HC अमर सिंह

सब कमांडर - HC रजा हुसैन

पायलट - HG राधेश्याम

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब, 25 क्वाटर देशी शराब, 30 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।

(क). उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रमेश कोल पुत्र नन्हे कोल निवासी नई बस्ती चमरौहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब व 30 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया।

(ख). उ0नि0 श्री फिरोज खां थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भोला गुप्ता पुत्र महोदव निवासी नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 25 क्वाटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव थाना रैपुरा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.मेडेलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी व्यास बन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. दिनेश कुमार पुत्र बिन्दा प्रसाद निवासी महेवाघाट जनपद कौशाम्बी को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों एवं गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 50/21 धारा 363 भादवि0 की अपहृता को 10 दिवस के अन्दर बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.06.2021 को थाना रैपुरा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना रैपुरा में सूचना दी कि उनकी नाबालिग पुत्री को अंकित सिंह उर्फ मूर्ति निवासी कसहाई थाना कोतवाली जनपद चित्रकूट बहला फुसलाकर ले गया है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 50/21 धारा 363 भादवि0 बनाम अंकित सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक रैपुरा द्वारा उ0नि0 श्री अनिल कुमार को अपहता की बरामदगी हेतु लगाया गया। उ0नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनांक 08.07.2021 को अपहता को सकुशल बरामद किया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना रैपुरा
2. महिला आरक्षी दीक्षा

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 08.07.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम अगरहुंडा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, आर्यनगर, शिवनगर, डॉटपुल आदि जगहों में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चैराहा, धुस मैदान, तरौंहा, एल0आई0सी0 तिराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक, कस्बा मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।